

सं. 44 अ: निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण की उदारीकृत योजना के अंतर्गत बाह्य विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डालर)

प्रयोजन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1. जमाराशि	9.1	23.2	19.7	24.0	30.4
2. अचल संपत्ति की खरीद	0.5	1.9	8.5	39.5	55.9
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	—	—	20.7	144.7	151.4
4. उपहार	—	—	7.4	70.3	133.0
5. दान	—	—	0.1	1.6	1.4
6. अन्य**	—	—	16.4	160.4	436.0
कुल (1 से 6)	9.6	25.0	72.8	440.5	808.1

(मिलि. अम. डॉलर)

प्रयोजन	2008-09											
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. जमाराशि	3.4	3.0	4.1	2.3	2.6	1.6	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	5.7
2. अचल संपत्ति की खरीद	7.7	7.0	6.5	5.7	4.6	5.7	3.1	2.6	2.5	2.6	2.7	5.2
3. इक्विटी/ऋण में निवेश	13.3	13.7	14.9	12.5	12.7	9.8	8.7	12.4	11.2	10.4	6.8	25.0
4. उपहार	8.8	10.9	10.2	12.7	16.0	7.9	8.6	23.2	9.7	7.6	8.5	8.9
5. दान	0.2	0.1	—	0.2	0.2	—	0.1	0.2	—	0.1	0.1	0.2
6. अन्य **	17.1	18.5	20.5	27.4	123.6	26.0	19.2	19.0	32.7	33.1	19.3	79.6
कुल (1 से 6)	50.5	53.2	56.2	60.8	159.7	51.0	40.9	58.8	57.7	55.5	39.2	124.6

(मिलि. अम. डॉलर)

प्रयोजन	2009-10									
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. जमाराशि	2.3	2.8	3.2	1.9	1.7	3.0	2.7	2.0	3.6	
2. अचल संपत्ति की खरीद	4.2	3.8	3.4	2.5	4.7	3.7	2.9	2.9	3.6	
3. इक्विटी/ऋण में निवेश	12.6	12.2	14.8	10.7	15.4	12.6	20.2	12.8	16.6	
4. उपहार	13.6	11.7	13.7	13.0	11.2	11.5	12.6	11.7	12.3	
5. दान	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	0.4	2.3	0.2	0.1	
6. यात्रा	1.4	1.5	1.1	2.5	1.2	2.3	1.8	1.8	0.6	
7. निकटतम रिश्तेदारों का निर्वाह	10.5	10.0	8.8	9.7	13.3	10.8	19.5	16.5	17.6	
8. डाक्टरी चिकित्सा	1.3	2.3	2.4	2.3	1.6	1.9	1.6	1.4	1.0	
9. विदेश में अध्ययन	6.1	6.8	89.3	12.7	21.0	18.5	7.7	11.0	10.6	
10. अन्य	6.0	6.4	7.6	9.5	8.5	7.5	6.2	5.5	6.7	
कुल (1 से 10)	58.1	57.7	145.0	64.9	78.8	72.2	77.5	65.8	72.7	

— : उपलब्ध नहीं।

** : शिक्षा, दौरा और यात्रा जैसी मदें शामिल हैं।

टिप्पणी : (i) 2004 से 2007 के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर हैं।

(ii) वर्तमान में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निवासियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी भी में चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन में 26 सितंबर 2007 से 2, 00,000 अमरीकी डॉलर तक विप्रेषण की अनुमति है। एलआरएस योजना का प्रारंभ फरवरी 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य निवासी व्यक्ति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 25,000 अमरीकी डॉलर तक का विप्रेषण आसानी से करने में सुविधा प्रदान करना था। इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2006 में प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकी डॉलर, मई 2007 में प्रति वित्तीय वर्ष 1, 00,000 अमरीकी डॉलर तथा सितंबर 2007 में 2, 00,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया।